



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 467393

आवेदन सं. / Application No. 202041005241

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 06/02/2020

पेटेंटी / Patentee INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) 1.MAYANK MITTAL 2.SACHIN KUMAR GUPTA

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **MULTI-GASEOUS FUEL COMPOSITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE SYSTEM, GASEOUS-FUEL DELIVERY SYSTEM AND METHOD OF OBTAINING COMPOSITION** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2020 के छठे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **MULTI-GASEOUS FUEL COMPOSITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE SYSTEM, GASEOUS-FUEL DELIVERY SYSTEM AND METHOD OF OBTAINING COMPOSITION** as disclosed in the above mentioned application

for the term of 20 years from the 6th day of February 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



[Signature]

अनुदान की तारीख : 09/11/2023
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2022 के छठे दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 6th day of February 2022 and on the same day in every year thereafter.